

# SILGO RETAIL LIMITED

CIN: L36911RJ2016PLC049036

SIL/JAI/22-23

Date: 23.08.2022

The Manager,
National Stock Exchange of India Limited
"Exchange Plaza",
Bandra-Kurla Complex,
Bnadra(East), Mumbai- 400 051
INDIA

Symbol: SILGO

Dear Sir/Madam,

### SUB: INTIMATION OF NEWSPAPER ADVERTISEMENT FOR ENSUING ANNUAL GENERAL MEETING

Pursuant to Regulation 47 and other applicable provisions of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we enclose the copies of newspaper advertisement published in Financial Express (English) and Jansatta (Hindi- Vernacular), in compliance with Ministry of Corporate Affairs Circular No. 20/2020 dated May 5, 2022, intimating that 7<sup>th</sup> Annual General Meeting of the Company will be held on Friday, September 23, 2022 at 4:00 pm IST through Video Conferencing / Other Audio Visual Means.

The above information is also available on the website of the Company www.sligo.in

This is for your information and record.

Thanking You,

Yours faithfully,
SILGO RETAIL LIMITED

TRIPTISHARMA

(CS & COMPLIANCE OFFICER)

FINANCIAL EXPRESS



### Sumedha Fiscal Services Limited CIN: L70101WB1989PLC047465 Regd. Office:

6A, Geetanjali, 8B Middleton Street, Kolkata - 700 071 Telephone Nos.: 033-2229-8936 / 6758 Email ID: investors@sumedhafiscal.com Website: www.sumedhafiscal.com

NOTICE OF THE 33rd ANNUAL GENERAL MEETING, REMOTE E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE ETC.

### Notice is hereby given that :

The 33rd Annual General Meeting of the Company ("33rd AGM") wil be convened on Saturday, 17th September, 2022 at 10:30 a.m. IST through Video Conferencing ("VC")/Other Audio Visual Means ("OAVM") Facility to transact the Ordinary Businesses, as set out in the Notice of the 33rd AGM, in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and Rules framed thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations. 2015 read with General Circular dated April 8, 2020, April 13, 2020. May 05, 2020, January 13, 2021, May 05, 2022 and such other related circulars issued from time to time (collectively referred to as "MCA Circulars") and Securities and Exchange Board of India ("SEBI") vide circular dated May 12, 2020, January 15, 2021 and May 13, 2022 (collectively referred to as "SEBI Circulars"), respectively, without the physical presence of the Members at a common venue.

In terms of MCA Circulars and SEBI Circulars, the Notice of the 33rd AGM and the Annual Report for the financial year 2021-22 including the Audited Financial Statements for the year ended 31st March, 2022 ("Annual Report") has been sent by email on August 18, 2022 to those Members whose email addresses are registered with the Company/Depository Participants(s). The requirements of sending physical copy of the Notice of the 33rd AGM and Annual Report to the Members have been dispensed with vide MCA Circulars and SEBI Circulars.

The Notice of the 33rd AGM and the Annual Report are available on the website of the Company at www.sumedhafiscal.com and the website of BSE Limited at www.bseindia.com. The Notice of the 33rd AGM is also available on the website of CSDL at www.evotingindia.com

The documents referred to in the Notice of the 33rd AGM are available electronically for inspection without any fee by the Members from the date of circulation of the Notice upto the date of the AGM. Members seeking to inspect such statutory registers and other relevant documents should send an email to the Company at investors@sumedhafiscal.com Book Closure and Dividend -

The Register of Members and the Share transfer books of the Company will remain closed from Monday, September 12, 2022 to Saturday, September 17, 2022 (both days inclusive) for the purpose of 33rd AGM and payment of Dividend, if approved by the Members.

The Dividend is proposed to be paid on and from 22nd September 2022 to those Shareholders whose names shall appear on the Company's Register of Members: a) as Beneficial Owners at the end of business hours of Saturday

10th September, 2022 as per the list to be furnished by NSDI and CDSL in respect of shares held in dematerialization form; as Members holding shares in physical mode appearing in Registe of Members of the Company after giving effect to the valid

Transfers/transmissions (if any) lodged with the Company on or before Saturday, 10th September, 2022. Members are requested to update their bank account details for the

purpose of dividend with-

If shares are held in electronic mode then through their Depository Participant(s), and

If shares are held in physical mode, then by downloading Forms ISR 1 and 2 available on the website of our Registrar & Share Transfer Agent (RTA)- M/s. Maheshwari Datamatics Pvt. Ltd. (MDPL) by visiting the link http://mdpl.in/form. You are requested to send duly completed Forms ISR 1 and 2 along with all enclosures as stated in the forms at the address of the RTA at 23, R. N.

Mukherjee Road, 5th floor, Kolkata - 700001.

Members may further note that as per the Income Tax Act, 1961 (the Act), as amended by the Finance Act, 2020, dividends paid or distributed by a company on or after 1st April, 2020 shall be taxable in the hands of the shareholders. The Company shall therefore be required to deduct tax at source at the time of making the payment of the dividend. if declared, at the ensuing AGM of the Company. In view of the above the Company shall be deducting TDS as per applicable TDS rates or dividend to be paid to Shareholders. The withholding tax rate would vary depending on the residential status, category of the shareholder and is subject to provision of requisite declarations / documents provided by the concerned shareholder to the Company. A communication in respect thereto has already been forwarded through email along with the Annual Report to the every member of the Company whose email address(es) are registered with the Company/Depository Participants(s).

Remote E-voting/E-voting

The voting rights shall be as per the number of equity shares held by the Members as on Saturday, 10th September, 2022 (cut-off date) Members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date may cast their vote electronically on the Ordinary Businesses, as set out in the Notice of the 33rd AGM through electronic voting system ("remote e-Voting") of Central Depository Services Limited ("CDSL"). All the members are informed that:

the Ordinary Businesses, as set out in the Notice of the 33rd AGM, will be transacted through voting by electronic means; the remote e-Voting shall commence at 9:00 a.m. IST on Wednesday, 14th September, 2022,

the remote e-Voting shall end at 5:00 p m IST on Friday, 16th September, 2022 the cut-off date, for determining the eligibility to vote through

remote e-Voting or through the e-Voting system during the 33rd AGM, is Saturday, 10th September, 2022;

any person, who becomes Member of the Company after sending the Notice of the 33rd AGM by email and holding shares as on the cut-off date i.e. Saturday, 10th September, 2022, may obtain the login ID and password by sending a request a helpdesk.evoting@cdslindia.com or mdpldc@yahoo.com However, if a person is already registered with CDSL for remote e-Voting then existing user ID and password can be used for

Member may note that: a) the remote e-Voting module shall be disabled by CDSL after the aforesaid date and time for voting and once the vote on a resolution is cast by the Member, the Member shall not be allowed to change it subsequently; b) the Members who have cast their vote by remote e-Voting prior to the 33rd AGM may participate in the 33rd AGM through VC/OAVM Facility but shall not be entitled to cast their vote again through the e-Voting system during the 33rd AGM c) the Members participating in the 33rd AGM and who had not cast their vote by remote e-Voting, shall be entitled to cast their vote through e-Voting system during the 33rd AGM and d) a person whose name is recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-Voting, participating in the 33rd AGM through VC/OAVM Facility and e-Voting during the

If you have any queries or issues regarding attending the AGN & e-Voting from the e-Voting System, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manua available at www.evotingindia.com, under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact-

a. Mr. Rakesh Dalvi - CDSL (022-23058542 and toll free no 1800 22 55 33).

b. Mr. S. Majhi, RTA - MDPL, at (033) 2243 5029, 2248 2248 or at E-mail Id. mdpldc@yahoo.com

All grievances connected with the facility for voting by electronic means may be addressed to Mr. Rakesh Dalvi, Manager (CDSL,) Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400013 or send an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call on 022-

The manner of the voting remotely ("remote e-voting") has also been provided in the Notice of the AGM members are requested to read carefully all the Notes set out therein and in particulars. instructions for joining the AGM, manner of casting vote through remote e-voting or e-voting during the AGM.

Members holding shares in physical form, whose email addresses are not registered with the Company, may register their e-mail addresses online on the website of Maheshwari Datamatics Pvt. Ltd. (RTA) by visiting the link http://mdpl.in/form providing the necessary details like Folio No., Name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self-attested scanned copy of PAN card). AADHAR (self-attested scanned copy of Aadhar Card) in support of the address of the Member. Members holding shares in demat form can update their email address with their Depository Participant Manner of registering of Email addresses and mandate for receiving Dividend electronically, if declared in the AGM-

· For Physical shareholders - You are requested to download Form ISR 1 available on the website of our RTA M/s. Maheshwari Datamatics Pvt. Ltd. by visiting the link http://mdpl.in/form. You are requested to send duly signed Form ISR 1 along with all enclosures as stated in the Form at the address of the RTA at 23, R. N. Mukherjee Road, 5th floor, Kolkata - 700001. For Demat shareholders - Please Register/Update through

respective Depository Participants (DPs) (Any such updation effected by the DPs will automatically reflect in the Company's subsequent records). Members who are holding shares in physical form or who have not

registered their email addresses with the Company can cast their vote through remote e-voting or through the e-voting system during the meeting in the manner as provided in the notice of AGM.

Sumedha Fiscal Services Ltd. Dhwani Fatehpuria Company Secretary & Compliance Officer Place: Kolkata Date: 19th August, 2022 Membership No.A23072

> Place: Bangalore Date: 22.08.2022

TVS MOTOR COMPANY LIMITED

Registered Office: "Chaitanya" No.12, Khader Nawaz than Road, Nungambakkam, Chennal - 600006 CIN; L35921TN1992PLC022845 Website: tysmotor.com, Email: contactus@tysmotor.com, Ph:044 28332115 Notice of loss of share certificates

NOTICE is hereby given that the following share certificate(s) issued by the company are stated to have been lost or misplaced or stolen and the registered holders / the legal heirs of the registered holders. thereof have applied to the company for issue of duplicate share certificate(s)

folio	Share cert nos.	No. of shares	Distinctive nos.	Name of registered holder
200000	6109	6000	5851101 - 5857100	SUBASH T HINGORANI
\$6446	16979	6000	240492195 - 240498194	LATA S HINGORANI

The public are hereby warned against purchasing or dealing in any way, with the above share certificates. Any person(s) who has/have any clairn(s) in respect of the said share certificates should lodge such claim(s) with the company at its registered office at the address given above within 15 days of publication of this notice, after which no claim will be entertained and the company will proceed to issue duplicate share certificates. For TVS Motor Company Limited Place: Chennai K Srinivasan Date: 23.8.22 Company Secretary



APPAREL EXPORT PROMOTION COUNCIL Regd. Office: A-223, Okhla Industrial Area, Phase-I, New Delhi-110 020 CIN: U74899DL1978NPL008877 Telefax: 011-40501798 Email: aepcokhla@aepcindia.com Website: www.aepcindia.com

## NOTICE

NOTICE PURSUANT TO SECTION 160 (2) OF THE COMPANIES ACT. 2013 Notice is hereby given that the following nominations have been received for contesting Election to the Executive Committee of the Council at the 43" Annual General Meeting of the Council to be held on 1" September, 2022, Thursday at 11.00 A.M through Video Conferencing/Other Audio Video Means.

WESTERN REGION

SOUTHERN REGION 1. Shri. Vijay Kumar Agarwal, M/s. Creative 1. Shri B. Shanmugasundaram, M/s RBR Garments Pvt. Ltd. Garments Pvt Ltd. . Shri Premal H. Udani, M/s. Kaytee Corporation Shri K. M Subramanian.

M/s K.M Knitwear Pvt. Ltd. 3. Shri R Ramu, M/s Fashion Knits. . Shri. Samir Narayan Bhuta, M/s Shreeji Exim

Shri Rakesh Vaid, M/s Usha Fabs Pvt, Ltd.

Shri Gautam Nair, M/s Matrix Clothing Pvt. Ltd.

The above list also includes the names of the Executive Committee Members who are retiring by rotation and have filed nomination for contesting election to the Executive Committee of the Council For Apparel Export Promotion Council

Place: New Delhi Date: 22/08/2022

zydŒ Dedicated To Life

### ZYDUS LIFESCIENCES LIMITED (Formerly known as Cadila Healthcare Limited)

[CIN L24230GJ1995PLC025878]

Regd. Office: Zydus Corporate Park, Scheme No. 63, Survey No. 536, Near Vaishnodevi Circle, Email: dhavalsoni@zyduslife.com Telephone: +91-79-48040000

# NOTICE

Sr. No.	Name of the shareholder	Distinctive Numbers	Folio Number	No. of Shares	Certificate No.	
1.	Sugandha Prakash Dhond Prakash Vasudeo Dhond	1533006-1533755	019734	750	1358	
2.	Kisanlal Oswal	2761211-2762710	065327	1500	2767	

from the date of publication of this notice, the Company will proceed to issue duplicate Share Certificate to the aforesaid shareholders. People are hereby cautioned not to deal with the above Share Certificates anymore and the Company will not be responsible for any loss / damage occurring thereby. For ZYDUS LIFESCIENCES LIMITED

Sd/- DHAVAL N. SONI Date : August 22, 2022 COMPANY SECRETARY Place: Ahmedabad

Regd. Office: No.16-C, Doddanekundi Industrial Area, II Phase, Mahadevapura, Bengaluru - 560 048. Tel +91 9731610341 Email: vinayak.hegde@yukenindia.com; Website: www.yukenindia.com CIN: L29150KA1976PLC003017

E-VOTING AND BOOK CLOSURE INFORMATION

NOTICE is hereby given that the 46th Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on Wednesday, 14th September, 2022 at 10.00 AM (IST) through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM"), to transact the business as mentioned in the 46th AGM Notice dated 09th August, 2022 without the physical presence of the Members at a common venue, in compliance with General Circular No.14/2020 dated 8th April, 2020. Circular No.17/2020 dated 13<sup>n</sup> April, 2020 and Circular 02/2021 dated 13" January, 2021 (Collectively referred to as "MCA Circulars") and Circular Nos. SEBI/HO/CFD/ CMD1/CIR/ P/2020/79 dated 12th May, 2020, Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/ CIR/P/2022/62 dated 13" May, 2022 issued by the Securities and Exchange Board of India (collectively referred to as 'SEBI Circulars'), and applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("Act") and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements)

In compliance with the aforesaid Circulars, electronic copies of the Notice of the 46th AGM and the Annual Report for the financial year 2021-22 have been sent on 20th August, 2022 to all those Members whose email addresses are registered with the Company Depository Participants as on 12" August, 2022. Notice of the AGM and 46" Annual Report of the Company are available on the website of the Company https://www.yukenindia.com/report-result/ and on the website of BSE Limited at www.bseindia.com and on the website of National Stock Exchange India Limited (NSE) at www.nseindia.com The dispatch of the Notice of the AGM along with Annual Report through emails has been completed on

Pursuant to the provisions of section 108 of the Act read with Rule 20. of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 44 of SEBI Listing Regulations, the Company is electronically on the businesses as set forth in the Notice of the AGM through the electronic voting system of KFin Technologies Limited "remote e-voting"). All the Members are hereby informed that:

Members may attend the 46" AGM through Video Conferencing "VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM") a https://emeetings.kfintech.com by using their remote e-voting credentials. The instructions for participating through VC and the process of E-voting are provided in the Notice of the 46" AGM.

Cut-off date is 06" September, 2022 for determining the name of members eligible for E voting and dividend on equity shares, if declared at the ensuing AGM.

E-voting shall commence on 09th September, 2022 at 09.00 AM (IST) and ends on 13th September, 2022 at 5:00 PM (IST). During this period, Members holding shares either in physical or dematerialized form as on cut-off date i.e., 06" September, 2022 may cast their vote electronically as instructed in the Notice of AGM.

Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may attend the AGM through VC but shall not be entitled to cast their vote again. Members who have not cast their vote by remote e-voting and are present in the AGM through VC, shall be eligible to vote through e-voting at the AGM. In case of any queries pertaining to e-voting or any technical

Registry, KFin Technologies Limited, Selenium Tower B, Plot Nos. 31 & 32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad - 500 032, Phone No. 040-67161500/1509, toll free No. 1-800-3094-001 or write to einward.ris@kfintech.com or evoting@kfintech.com

> By Order of the Board of Directors For Yuken India Limited C P Rangachar

YUKEN YUKEN INDIA LIMITED

Regd. Office: No.16-C. Doddanekundi Industrial Area, II Phase. Mahadevapura, Bengaluru - 560 048.Tel +91 9731610341 Email: vinayak.hegde@yukenindia.com; Website: www.yukenindia.com CIN: L29150KA1976PLC003017

## NOTICE

Pursuant to Section 201 of the Companies Act, 2013 (the "Act" notice is hereby given that Yuken India Limited (the Company is proposing to make an application to the Central Government to obtain approval under Sections 196, 203 read with Schedule V and other applicable provisions of the Act for the appointment of Mr. Yoshitake Tanaka (DIN: 0009686092) as Whole Time Director of the Company for a period of 5 years i.e. from 14" September, 2022 to 13" September, 2027.

Any person having any objection to the above proposal may if he/she so desires, communicate his/her objection(s) in writing, duly substantiated within a period of 30 days from the date of publication of this notice to the Secretary, Ministry of Corporate Affairs, Shastri Bhawan, Dr. Rajendra Prasad Marg. New Delhi-110 001 with a copy of the same to the applicant Company at the aforementioned registered office.

> By Order of the Board of Directors For Yuken India Limited C P Rangachar Managing Director

# MANORAMA INDUSTRIES LIMITED

Place: Bangalore

Date: 22.08.2022

Sumit Gupta

(Secretary)

Registered Office: Office no. 403, MIDAS, Sahar Plaza, Andheri Kurla Road, Andheri East, Mumbai - 400059, Maharashtra CIN: L15142MH2005PLC243687

Website: www.manoramagroup.co.in; Tel No:022 22622299 Corporate Office: F-6, Anupam Nagar, Raipur - 492007, Chhattisgarh Tel: +91-771-2283071,Fax: 0771 4056958 E-mail:cs@manoramagroup.co.in

INFORMATION REGARDING 17TH ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCING (VC)/ OTHER AUDIO VISUAL MEANS (OAVM). Notice is hereby given that the 17th Annual General Meeting ("AGM") of the Members of

Manorama Industries Limited ("the Company") will be held on Monday, September 19, 2022 at 02:00 P.M. (IST) through VC/OAVM, to transact the business as set forth in the Notice convening the meeting ("Notice"), in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and Rules framed thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations") read with General Circular Nos. 14/2020, 17/2020, 20/2020, 02/2021, 21/2021 and 02/2022 dated April 08, 2020, April 13, 2020, May 05, 2020 and January 13, 2021, December 14, 2021 and May 05, 2022 respectively, issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars") and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020, SEBI/HO/CFD/ CMD2/CIR/P/2021/11 dated January 15, 2021 and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2 CIR/P/2022/62 dated 13 May, 2022 issued by the Securities and Exchange Board of India "SEBI Circulars") have extended the above exemptions till 31st December, 2022 and accordingly in compliance with the provisions of the Act and the SEBI Listing Regulations. without the physical presence of Members at a common venue.

In compliance with the above circulars, electronic copies of the Notice of AGM along with Annual Report of the Company for the financial year 2021-22 along with login details for joining the 17th AGM through VC or OAVM will be sent to those Shareholders whose email addresses are registered with the Company/ Depository Participants(s) and Registrar and Share Transfer Agent, Link Intime India Private Limited (LIIPL) and the same will also available on Company website of the Company at www.manoramagroup.co.in, on the website of Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com and on the website of the LIIPL at

Manner of registering/updating email addresses to receive the Notice of AGM along with Annual Report:

their respective Depository Participant, can register the same in the following manner In case, you are holding shares in demat form and you have not registered your email id with the Depository Participant, you are requested to register/update your email id with the Depository Participant or temporarily registration with Registrar and Share Transfer agent by sending a duly signed request letter to Link Intime India Private Limited, at their

In case, you are holding shares in physical form and you have not registered your email id, you are requested to register/update their email address by sending a duly signed request letter to Link Intime India Private Limited, at their email id MANNER OF REMOTE E-VOTING AND E-VOTING AT THE AGM:

The Company has engaged the services of LIIPL to provide remote e-voting facility and e-voting facility during the AGM. The Company is providing remote e-voting facility (remote e-voting) to all its members to cast their vote on all resolutions set out in the Notice of 17th AGM. Additionally, the Company is providing the facility of voting through e-voting system during the AGM ('e-voting'). The detailed procedures and instructions for casting votes through remote e-voting or e-voting during the AGM for all the members (including the members holdings shares in physical form/whose ema addresses are not registered with the Depository Participants/Company/RTA) are stated in the Notice of the 17th AGM of the Company. For Manorama Industries Limited

Vinita Saraf Place : Raipur Chairperson & Managing Director

Date : August 23, 2022

# THE MIDLAND RUBBER & PRODUCE COMPANY LIMITED

Tele: 0484-2315312 Fax: 0484-2312541 E-mail:secmidland@avtplantations.co.in

Members of The Midland Rubber & Produce Company Limited will be held on Thursday, September 15, 2022 at 10.30 A.M. at the Registered Office at No.27/1032, Panampilly Nagar, Kochi, Ernakulam - 682 036, to transact the business as set out in the notice of AGM, sent to the members individually.

The Notice of 85th AGM and Annual Report for the financial year ended March 31, 2022 have been sent to all eligible members individually at their addresses registered with the Company / Share Transfer Agent of the Company by the permitted mode. These documents are also available for inspection at the Registered Office of the Company during normal business hours on working days except Saturdays, Sundays and public holidays prior to the date of the AGM.

amended, Members are provided with the facility to cast their votes on all resolutions set forth in the Notice of the AGM using electronic voting system from a place other than the venue of the AGM ('remote e-voting'). The Company has engaged the services of Central Depository Services (India) Limited ('CDSL') as the Agency to provide e-voting facility. Members holding shares in physical form or in dematerialized form may cast their vote electronically on the Business as set out in the Notice.

2022 at 9:00 a.m. and shall end on Wednesday, September 14, 2022 at 5:00 p.m. E-voting portal shall be blocked after the aforesaid date and time for voting. Once the vote is cast by the member on any resolution, the member shall not be allowed to change it subsequently. The procedure and other details of remote e-voting are described in the Notice of the AGM.

exercise their votes at the AGM. The Company will provide the facility of voting through Poll at the AGM Venue. The Members who have already cast their vote by remote e-voting may also attend the Meeting but shall not be entitled to cast their vote again.

The cut-off date for the purpose of e-voting is September 08, 2022, and a person, whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by depositories as on 'cut-off date' shall only be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at the AGM Venue.

July 26, 2022 had recommended a Final dividend of Rs.75/- per equity share (750%). The record date for the purposes of Final dividend for the Financial Year 2021-22 will be September 08, 2022. The Final dividend, once approved by the shareholders in the ensuing AGM will be paid on or before October 14, 2022, electronically through various online transfer modes to those shareholders who have updated their bank account details. For shareholders who have not updated their bank account details, dividend warrants/demand drafts will be sent out to their registered addresses. To avoid delay in receiving the dividend, Shareholders are requested to update their KYC with their depositories (where shares are held in dematerialized mode) and with the Company's Registrar and Share Transfer Agent viz. Cameo Corporate Services Limited (where the shares are held in physical mode) to receive the dividend directly into their bank account on the pay-out date.

holding shares as on the cut-off date may obtain the login ID and password by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com by mentioning their Folio No. or DP id & Client id No.

Mr. V Suresh, Practicing Company Secretary, Chennai, has been appointed as Scrutiniser for the remote e-voting process and voting through physical ballot at the AGM.

For detailed instruction pertaining to e-voting, members may please refer to the section'e-voting instructions' in notice of the Annual General Meeting. In case of queries or grievances pertaining to e-voting procedure, shareholders may refer the Frequently Asked Questions(FAQs) for the shareholders and e-voting user manual for shareholders available at the download section of www.evotingindia.com or may contact Mr. Rakesh Dalvi, Sr. Manager, (CDSL) Central Depository Services (India) Limited, A Wing- 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatial Mill Compounds, NM Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai- 400 013 or send an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call at toll free no. 1800 22 55 33.

applicable health and safety protocols issued by Government of India and/or Government of Kerala, to safeguard the health and safety of our shareholders attending the AGM of the Company to be held on September 15, 2022, as mentioned in the Annual Report. By order of the Board

> Ajit Thomas Chairman



BSE Limited

25th Floor, P. J. Towers, Dalal Street, Mumbai - 400 001 Tel. No.22721233 / 34 Fax No.22721003 • www.bseindia.com CIN No.: L67120MH2005PLC155188

### NOTICE

Notice is hereby given that the following trading members of BSE Limited (Exchange) has requested for the surrender of its trading membership of the Sr.No. Name of the Trading Member SEBI Reen. No. Closure of

	The state of the s	Jeen megin ive.	business w.e.f.
1	SENATOR SECURITIES PVT. LTD.	INZ000254137	29/10/2019
2	HIREN KOTHARI	INZ000269313	28/02/2020

lodge complaints, if any, immediately (in the prescribed complaint form) within 3 (three) months from the date of this notification. Kindly note that no such complaints filed beyond the aforesaid period shall be entertained by the Exchange against the above mentioned trading members and it shall be deemed that no such complaints exist against the above mentioned trading members, or such complaints, if any, shall be deemed to have been waived. The complaints filed against the above mentioned trading members will be dealt with in accordance with the Rules, Bye-laws and Regulations of the Exchange. All the relevant papers may be sent to BSE Ltd., Department of Investor Services, Dalal Street, Fort, Mumbai - 400 001. (The complaint forms can be downloaded from www.bseindia.com > Investors > Investors Grievances > (b) Investors' Grievances against BSE's Trading Members > Complaint Form OR may be obtained from the Exchange office at Mumbai and also at the Regional Offices).

> For BSE Limited Sr. General Manager Membership Operations

SILGO RETAIL LIMITED

Place : Mumbai

Date: 23<sup>rd</sup> August, 2022

Registered Office: B-11, Mahalaxmi Nagar, Jawahar lal Nehru Marg, Jaipur-302017 E-Mail: info@silgo.in CIN: L36911RJ2016PLC049036 WEBSITE: www.silgo.in Phone No.: +91-0141-4919655 NOTICE

Notice is hereby given that the Seventh (7th) Annual General Meeting ("AGM") of the

Company will be held on Friday, 23September, 2022 at 04:00 P.M. through Video

Conferencing ("VC")/ Other Audio Visual Means ("OAVM") facility in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and Rules framed thereunder and the SEBI Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with General Circulars dated 08thApril 2020, 13thApril 2020, 05thMay 2020and 13th January 2021,14th December, 2021 and May 05th, 2022 respectively, issued by the Ministry of Corporate Affairs "MCA Circular(s)") Further Securities Exchange Board of India vide its circular dated May 13, 2022 has allowed Listed entities to send their Annual reports in electronic mode ("SEBI Circular). The Notice of the 7th AGM and Annual Report for the F.Y. 2021-22will be sent only by e-mailto all the members whose e-mail IDs are registered with the Company/Depository

Participant(s). The above documents are also available on the Company's website .e.www.silgo.in andthe website of the NSE Limited www.nseindia.com, Those Shareholders whose email lds are not registered with their Depositories are requested to get their email addresses registered for the purpose of getting credentials for remote e-voting along with the Notice of 7th AGM and integrated Annual Report 2021-22 electronically by providing the same to the RTA on or before 5:00 P.M. (IST) on Friday August 26, 2022 Members can join the Meeting through VC/OAVM means only. The instruction for joining the

7th AGM and the manner of participation in the remote e-voting or casting vote through the evoting system during the 7th AGM are provided in the Notice of 7th AGM Process for those Shareholders whose E-mail Addresses are not registered with the Depositories for obtaining Login Credentials for E-Voting for the Resolutions Proposed in this

For Physical shareholders- please provide necessary details like Folio No., Name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested scanned copy of Aadhar Card) by email to Company's mail id cs@silgo.in&RTA email idinfo@bigshareonline.com.

For Demat shareholders -, please provide Demat account details (CDSL-16-digit beneficiary ID or NSDL-16-digit DPID + CLID), Name, client master or copy of Consolidated Account statement, PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested scanned copy of Aadhar Card) to Company mail id cs@silgo.in&RTAemailidinfo@bigshareonline.com.

n case of any queries, members may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and eoting manual available at www.evotingindia.com, under help section or write an email to elpdesk.evoting@cdslindia.comor contact at 022-23058738 and 022-23058542/43.

Date: 22.08.2022

SILGO RETAIL LIMITED TRIPTI SHARMA

Company Secretary

Regd. Office: 27/1032, Panampilly Nagar, Kochi, Ernakulam- 682 036, Kerala Tel: 0484 - 2315312 Fax: 0484 - 2312541 E-mail: secnelliampathy@avtplantations.co.in

THE NELLIAMPATHY TEA & PRODUCE COMPANY LIMITED

CIN: U01132KL1943PLC000782

NOTICE OF THE 79th ANNUAL GENERAL MEETING E-VOTING AND BOOK CLOSURE NOTICE is hereby given that the 79th Annual General Meeting ('AGM') of the Members of The Nelliampathy Tea & Produce Company Limited will be held on

Thursday, September 15, 2022 at 11.30 A.M. at the Registered Office at No.27/1032,

Panampilly Nagar, Kochi, Ernakulam – 682 036, to transact the business, as set out in the notice of AGM, sent to the members individually. The Notice of 79th AGM and Annual Report for the financial year ended March 31, 2022 have been sent to all eligible members individually at their addresses registered with the Company / Share Transfer Agent of the Company by the permitted mode. These documents are also available for inspection at the

Registered Office of the Company during normal business hours on working days

except Saturdays, Sundays and public holidays prior to the date of the AGM. In compliance with Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended, Members are provided with the facility to cast their votes on all resolutions set forth in the Notice of the AGM using electronic voting system from a place other than the venue of the AGM ('remote e-voting'). The Company has engaged the services of Central Depository Services (India) Limited ('CDSL') as the Agency to provide e-voting facility. Members holding shares in physical form or in dematerialized form

may cast their vote electronically on the Business as set out in the Notice. The remote e-voting facility shall commence on Monday, September 12, 2022 at 9:00 a.m. and shall end on Wednesday, September 14, 2022 at 5:00 p.m. E-voting portal shall be blocked after the aforesaid date and time for voting. Once the vote is cast by the member on any resolution, the member shall not be allowed to change it subsequently. The procedure and other details of remote e-voting are described in the Notice of the AGM.

votes at the AGM. The Company will provide the facility of voting through Poll at the AGM Venue. The Members who have already cast their vote by remote e-voting may also attend the Meeting but shall not be entitled to cast their vote again. The cut-off date for the purpose of e-voting is September 08, 2022, and a person,

Members who have not cast their votes through remote e-voting can exercise their

whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by depositories as on 'cut-off date' shall only be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at the AGM Venue.

Shareholders may note that the Board of Directors in their meeting held on July 26, 2022 had recommended a Final dividend of Rs.15/- per equity share (150%). The record date for the purposes of Final dividend for the Financial Year 2021-22 will be September 08, 2022. The Final dividend, once approved by the shareholders in the ensuing AGM will be paid on or before October 14, 2022, electronically through various online transfer modes to those shareholders who have updated their bank account details. For shareholders who have not updated their bank account details, dividend warrants/demand drafts will be sent out to their registered addresses. To avoid delay in receiving the dividend, Shareholders are requested to update their KYC with their depositories (where shares are held in dematerialized mode) and with the Company's Registrar and Share Transfer Agent viz. Cameo Corporate Services Limited (where the shares are held in physical mode) to receive the dividend directly into their bank account on the pay-out date.

Any person who acquires shares after despatch of the Notice of AGM and holding shares as on the cut-off date may obtain the login ID and password by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com by mentioning their Folio No. or DP id & Client id No.

Mr. V Suresh, Practicing Company Secretary, Chennai, has been appointed as Scrutiniser for the remote e-voting process and voting through physical ballot

The Notice of AGM is also available on the CDSL's website www.evotingindia.com. For detailed instruction pertaining to e-voting, members may please refer to the section 'e-voting instructions' in notice of the Annual General Meeting. In case of queries or grievances pertaining to e-voting procedure, shareholders may refer the Frequently Asked Questions(FAQs) for the shareholders and e-voting user manual for shareholders available at the download section of www.evotingindia.com or may contact Mr. Rakesh Dalvi, Sr. Manager, (CDSL) Central Depository Services (India) Limited, A Wing- 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatial Mill Compounds, NM Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400 013 or send an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call at toll free no. 1800 22 55 33.

Notice is also given pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read with Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, that the register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from September 09, 2022 to September 15, 2022 (both days inclusive) for annual closing and for the purpose of 79th AGM.

In view of the ongoing COVID-19 pandemic, the Company will implement applicable health and safety protocols issued by Government of India and/or Government of Kerala, to safeguard the health and safety of our shareholders attending the AGM of the Company to be held on September 15, 2022, as mentioned in the Annual Report. By order of the Board

> For The Nelliampathy Tea & Produce Company Limited Ajit Thomas Chairman

financialexp.epap.in

NORTHERN REGION Shri, HKL Magu, M/s Jyoti Apparels.

Khoraj (Gandhinagar), Sarkhej - Gandhinagar Highway, Ahmedabad - 382481, Website : www.zyduslife.com

Notice is hereby given that the Company has received intimation from the following shareholders that the Share Certificates pertaining to the Equity Shares held by them as per the details given below have been lost / misplaced.

No.	shareholder	Numbers	Number	Shares	s No.	
1. Sugandha Prakash Dhond Prakash Vasudeo Dhond		1533006-1533755	019734	750	1358	
2	Kisanlal Oswal	2761211-2762710	065327	1500	2767	

# YUKEN INDIA LIMITED

NOTICE NOTICE OF 46" ANNUAL GENERAL MEETING

Regulations, 2015 ("Listing Regulations").

providing its Members remote e-voting facility to cast their vote

assistance or IT support for participation in the AGM through VC/OAVM may contact Ms. Sheetal Doba- Manager Corporate

Pursuant to the provisions of section 91 of the Companies Act 2013 and Regulation 42 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from 07" September, 2022 to 14" September, 2022 (both days inclusive) for the purpose of AGM and for payment of dividend if approved at the ensuing AGM.

Managing Director

# CIN: U25191KL1937PLC000691 Regd. Office: 27/1032, Panampilly Nagar, Kochi, Ernakulam- 682 036, Kerala

NOTICE OF THE 85<sup>TH</sup> ANNUAL GENERAL MEETING E-VOTING AND BOOK CLOSURE NOTICE is hereby given that the 85th Annual General Meeting ('AGM') of the

In compliance with Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as

The remote e-voting facility shall commence on Monday, September 12,

Members who have not cast their votes through remote e-voting can

Shareholders may note that the Board of Directors in their meeting held on

Any person who acquires shares after despatch of the Notice of AGM and

The Notice of AGM is also available on the CDSL's website www.evotingindia.com.

Notice is also given pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read with Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, that the register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from September 09, 2022 to September 15, 2022 (both days inclusive) for annual closing and for the purpose of 85th AGM. In view of the ongoing COVID-19 pandemic, the Company will implement

For The Midland Rubber & Produce Company Limited

New Delhi

Place : Kochi

Date: August 22, 2022

Date: August 22, 2022

Place: Kochi

ज्ञात अधिभार (यदि कोई हो)

गरक्षित मृत्य (रू. में)

# पहचान की अपील



आम जनता को सूचित किया जाता है कि एक व्यक्ति जिसका नामः नामालूम, पुत्रः नामालूम, पताः नामालूम, उम्रः लगभग 56 साल, कदः ५'७", लिंगः पुरूष, रंगः सावला, **पहनावाः** बैंगनी रंग की टी–शर्ट और अंडर वियर, बरामदी स्थलः जिसे एम्स ट्रॉमा सेन्टर में भर्ती कराया गया था और इलाज के दौरान उसकी मृत्यू हो गई। इस सम्बंध में DD No. 6 , दिनांक: 16.08.2022

पुलिस स्टेशनः हजरत निजामुद्दीन, नई दिल्ली में दर्ज है। यदि इसके बारे में कोई सुराग या जानकारी मिले तो इसकी सूचना तुरत निम्नलिखित पते पर दे।

पुलिस स्टेशन, हजरत निजामुद्दीन, नई दिल्ली फोन नं.: 8750870929 DP/252/SE/2022

### <u>न्यायालय अपर जिला मजिस्ट्रेट, (न्यायिक)/</u> अपर कलेक्टर, लखनऊ

वाद संख्या— डी20221046003816 टाटा कैपिटल फाइनेंसियल सर्विस लि. बनाम

अन्तर्गत धारा-14, वित्तीय अस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गटन और प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम (सरफेसी), 2002 तारीख पेशी- 25-08-2022

संख्या– 693/रीडर–(न्यायिक) 2022

दिनांक 01/08/2022

//नोटिस//

- 1. मे. अजय बेवरेजस प्रा. लि. द्वारा प्रोपराइटर खसरा नं 363 ग्राम घुरु का पुरवा चिनहट, लखनऊ- 226019. आलसो एट:- सी-1/188, विक्रान्त खण्ड, गोमती नगर लखनऊ, उ. प्र. 2260 10.
- 2. अभय कुमार सिंह,
- सी-1/188, विक्रान्त खण्ड, गोमती नगर लखनऊ, उ. प्र. 226010. 3. अक्षय सिंह,
- सी—1/188, विक्रान्त खण्ड, गोमती नगर लखनऊ, उ. प्र. 2260 10.
- 4. कंचन यादव सी-1/188, विक्रान्त खण्ड, गोमती नगर लखनऊ, उ. प्र. 226010.

एतद् द्वारा आपको नोटिस दी जाती है कि टाटा कैपिटल फाइनेंसियल सर्विसेस लि. के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में वाद पत्र प्रस्तुत

करते हुये यह अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा उक्त बैंक से लिए गए ऋण का भुगतान अभी तक अदा नहीं किया गया है। अतः आप दिनांक 25/08/2022 को समय 10.30 बजे दिन में अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित होकर कारण स्पष्ट करें कि क्यों न वित्तीय

आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा— 14 के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए बैंक द्वारा प्रस्तुत अभिलेख में कथित सम्पत्ति को कब्जे में लेकर बैंक को ऋण अदायगी वसूली के सम्बन्ध में दे दी जाए। यदि आप उक्त निर्धारित दिनांक व समय पर अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित नहीं होते हैं तो समझ जायेगा कि आपको कुछ नहीं कहना है और तद्नुसार नियमानुसार आदेश पारित कर दिए जायेंगे। (विपिन कुमार मिश्र)

अपर जिला मजिस्ट्रेट (वि. एवं रा.)प्रशासन अपर कलेक्टर लखनऊ

द्धीमैट

### **Fullerton India Credit Company Limited** कॉर्पोरेट कार्या: छठा तल, बी विंग, सुप्रीम बिजनेस पार्क, पवई, मुम्बई-400076 मांग सुचना

वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 ("नियमावली") के प्रावधानों के अंतर्गत

अधिनियम के अंतर्गत फ्यूलर्टन इंडिया क्रेडिट कम्पनी लिमिटेड (एफआईसीसीएल) के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा नियम 3 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत मांग सूचना जारी कर अधोलिखित ऋणधारकों को उनत सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि वापस लौटाने का निर्देश दिया था। अधोहस्ताक्षरी का मानना है कि ऋणधारक मांग सूचना(ओं) की अनदेखी कर रहे हैं, अत: नियमों के अनुसार एफिक्शेसन तथा प्रकाशन द्वारा सूचना जारी की जा रही है। मांग सूचना का विषय वस्तु इस प्रकार

١	ऋणधारक(कों) का नाम	मांग सूचना तिथि एवं राशि
	रांझा सुपर स्टोर, जितेन्दर कुमार, सिकन्द्रा सिंह, अम्बरीश	22.6.2022, 22.6.2022 को
l	जीतेन्दर, महावीर सिंह, खाता नं.: 173021310722019 एवं	₹. 87,36,400/-
l	173021310593946	

गिरवी रखी गई अचल सम्पत्ति (सम्पत्तियों का विवरण) सरीफाबाद, राजपुर, परगणा लोनी, तहसील एवं जिला गाजियाबाद, उ.प्र. में स्थित खसरा नं. 560 में भूर् रिया माप १६९१ वर्ग यार्डस अर्थात ११ बिसवा ४ बिसवंसी। चौहद्दी इस प्रकार है: पर्व: आम रास्ता, पश्चिम ाजरुबा शिव लाल सिंह जाट, उत्तरः सर्किल रोड, दक्षिणः न. शिव लाल सिंह जाट, ऊपर।

ऋणधारकों को सलाह दी जाती है कि मांग सचनाओं का अनपालन करें तथा भगतान की वसली तक लाग दर पर याज, अतिरिक्त ब्याज, बाउन्स चार्जेज, लागत तथा खर्चे के साथ इस प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर मां सचना की उपरोक्त राशि का भगतान करें। ऋणधारक ध्यान रखें कि एफआईसीसीएल एक प्रतिभृत क्रेडीटर है तथ ऋण है, के प्रति एक प्रतिभूत ऋण है।

यदि ऋणधारक निर्धारित समय के भीतर अपनी सम्पूर्ण देयताओं को निष्पादित नहीं करते हैं तो एफआईसीसीएर भुगतान की वसूली करने के लिये अधिनियम तथा नियम के अंतर्गत बिक्री अथवा अन्य उपचार के द्वारा उसवे अंतरण के अधिकार सहित प्रतिभृत परिसम्पत्तियों का कब्जा करने के लिये अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत सभी अधिकारों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत होगा। एफआईसीसीएल बिक्री अथवा अंतरण के अधिकार के प्रवर्त्तित करने से पूर्व प्रतिभृत परिसम्पत्तियों को एटैच एवं/अथवा सील करने के लिये भी अधिकृत होगा। प्रतिभू परिसम्पत्तियों की बिक्री के उपरांत एफआईसीसीएल को यदि उसे देय सम्पर्ण बकाये की वसली प्राप्त नहीं होती है तो शेष बकाए की वसूली करने के लिए एफआईसीसीएल को अलग से कानूनी कार्रवाई शुरू करने का भी अधिकार है। यह उपचार किसी अन्य कानून के अंतर्गत एफआईसीसीएल को उपलब्ध अन्य सभी उपचारों के अतिरिक्त तथा

ऋणधारकों का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13(8) तथा पनः अधिनियम की धारा 13 (13) के प्रति आंकष्ट की जाती है जिसके द्वारा ऋणधारक एफआईसीसीएल की लिखित अनुमति प्राप्त किए बिना किसी भी प्रतिभूत परिसम्पत्तियों का (व्यवसाय की सामान प्रक्रिया को छोड़कर) बिक्री, पट्टाँ अथवा अन्य रूप से व्यवसाय अथवा प्रतिभृत परिसम्पतियों का निपटारा अथवा अंतरण करने से प्रतिबंधित किए गए हैं तथा उपरोक्त की अवज्ञा उक्त अधिनियम की धारा 29 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। मांग सूचना की प्रति अधोहस्ताक्षरी के पास उपलब्ध है तथा ऋणधारक, यदि ऐसा चाहे किसी भी कार्य दिवस को कार्यावधि के दौरान उसे अधोहस्ताक्षरी से प्राप्त कर सकते हैं।

स्थानः गाजियाबाद, उ.प्र. उज्जवल- प्राधिकत अधिकारी फ्यूलर्टन इंडिया क्रेडिट कम्पनी लिमिटेड

# आईबीसी, 2016 के अंतर्गत ई नीलामी बिक्री सूचना मेसर्स जेम बैटरीज प्राइवेट लिमिटेड की संपत्ति की बिक्री के लिए ई नीलामी (परिसमापन के तहत) सीआईएन: U31909DL2003PTC121756

आरओसी के अनुसार पंजीकृत कार्यालयः बै—ll / 11, मोहन सहकारी औद्योगिक एस्टेट, बदरपुर, नई दिल्ली—110044 **परिसमापक का कार्यालयः** 812, 8वीं मंजिल, इंद्र प्रकाश बिल्डिंग, बाराखंमा

रोड, नई दिल्ली-110001 दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के तहत देवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता, 2016 और इसके तहत बनाए गए विनियम के तहत आम जनता को एतद्दवार सूबना दी जाती है कि नीचे दी गई तालिका में संपत्तियों/संपत्ति, जो माननीय राष्ट्रीय कंपनी कानू-्रायायिषिकरण, नई दिल्ली बेंच के दिनांक 17.09.2021 के आदेश के द्वारा नियुक्त परिसमापक द्वारा गठित परिस्प पन संपत्ति का हिस्सा हैं,को ई नीलामी मंचः https://right2vote.in के माध्यम से ई नीलामी द्वारा बेचा जाएगा

1				
विवरण	ई—नीलामी की तिथि और समय	आरक्षित मूल्य (भा.रु.)	ईएमडी राशि और दस्तावेज जमा करने की समय सीमा	बोली वृद्धिशील मूल्य
निम्नलिखित से मिलकर बनी	दिनांक:	₹.	₹.	₹.
परिसम्पत्तियों के लिए समग्र बोलीः	07 सितंबर, 2022	3,68,85,006 /-	36,88,500 /-	5,00,000/-
क ) भूमि (5 बीघा परिमाप ) और	समयः सुबह 10.30		03 सितंबर,	
भवन,	बजे से दोपहर		2022 को या	
ख ) संयंत्र और मशीनरी	03.30 बजे तक		उससे पहले,	
ग) प्रतिभूतियां / वित्तीय आस्तियां –			शाम 5 बजे से	
(नीचे दी गई तालिका के विवरण के	असीमित विस्तार के		पहले	
अनुमार )	ज्याध्य)			

ग) प्रतिभूतियां / वित्तीय आस्तियां — (प्र (नीचे दी गई तालिका के विवरण के अ						शाम 5 बजे से पहले	
अनुसार	अनुसार )		साथ)				
क्रमांक	क्रमांक संपत्ति विवरण		संपत्ति व्यौरा				
1.	भूमि और भवन		सोलन, हिमा कारखाने की	ंनंबर 381/62, ग्राम जूडी कलां, तहसील बदी, जिला ;, हिमाघल प्रदेश में स्थित भूमि (5 बीघा मापक्षेत्र) और गंने की इमारत। त मूल्य: 3,62,56,378/ — (समग्र बोली के आरक्षित मूल्य मेल)			
2	संयंत्र और मशीनरी		सोलन, हिमा रूप में स्व्रं	वल प्रदेश हेप हैं, क	में संय ारखाने	जूडी कलां, तहर त्र और मशीनरी, में पड़े हैं, के आरक्षित मूल्य	जो स्वाभाविक आरक्षित मूल्यः
3	प्रतिभूतियां / वित्तीय परिसम्पत्तियां		विविध देनदा	रों, सरकारी	विभाग	ों , आदि से प्राप	य

नेरीक्षण की तिथिः श्री चंद्र प्रकाश , +91&9650186090@ip.gemcirp@gmail.com को पूर्व सूचना के साथ 24 अगर 022 से 03 सितंबर, 2022 (अप. 12.00 बजे से शाम 4.00 बजे तक) ओआई जमा करने की अंतिम तिथिः 03 सितंबर, 2022

आरक्षित मूल्यः रु. 3,20,990 /-

(समग्र बोली के आरक्षित मूल्य में शामिल)

स्थान :नई दिल्ली

इंआआंड जमी करन को आतम तिथा. 03 प्रस्तबर, 2022 **विक्रों के नियम और स्वेंट क्रिक्ट के नियम और सर्वेंद्र मक्कार हैं**1.ई—नीलामी 'जैसा है जहां है आधार', 'जैसा है जो है आधार', 'जो कुछ भी आधार है' और 'कोई संसाधन आधार नहीं' फ आयोजित की जाएगी क्योंकि ऐसी बिक्री अनुमोदित सेवा प्रदाता मैससे राइट्युंगेटइक्टोटेक प्राइवेट लिमिटेड (https://right/vote.in ) के माध्यम से किसी भी प्रकार की बारंटी और हातिपूर्ति के बिना है। 2. बोदियां निर्धारित प्रास्थ्य में परिसमापक (ऑनटाइन या हार्ड कॉपी) को प्रस्तुत की जाएंगी। बोली फॉर्म, विस्तृत नियम और शर्ते और ई—नीलामी प्रक्रिया में रुचिव दिखाते हुए ip.gemcirp@gmail.com को एक ईमेल लिखकर पूर्ण ई—नीलामी

चंद्र प्रकाश, परिसमापक जेम बैटरीज प्राइवेट लिमिटेड (परिसमापन में) आईबीबीआई पंजीकरण सं: 1BBI/IPA-002/IP-N00660/2018-2019/12023 फोन: +91-9310403033, ईमेल: ip.gemcirp@gmail.com

ामिटेड, एक्सिस हाउस, टॉवर टी –2, दूसरी मंजिल, आई –14, सेक्टर –128, नोएर एक्सप्रेसवे, जेपी ग्रीन्स विशटाउन, नोएडा (युपी) —201301 कॉर्पोरेट कार्यालयः ब्लॉक— बी, बॉम्बे डाइंग मिल्स कंपाउंड, पांडुरंग बुधकर मार्ग, वर्ली, मुंबई—400025, पंजीकृत कार्यालयः त्रिशूल र्गजिल समर्थेश्वर मंदिर के सामने लॉ गार्डन एलिसबिज अहमदाबाद—380006

सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत कब्जा–सूचना भूचर जवारताच्या प्यापा आत्याच के आरापूरावरण, जुगानागं आरापूरा किया क्यांने कालानान, 2000 के तहत एविस्तर बैंक लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी होने के नाते और प्रतिमृति हित (प्रवर्तन) नियम 200 के नियम 9 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ऋणीध्सह—उधारकर्ता(ओं भगान्य के भाज नारा जाता त्यां है। हैं के स्वान्य के स्वान्य के स्वान्य के स्वान्य के स्वान्य के स्वान्य के स्व एगारंटर(ओ)वेंबककर्ता(ओ) को नोटिस में उल्लिखित राशि को उक्त नोटिस प्राप्त होने की तारीख से 60 दिनों के भीतर चुकाने के लिए मांग नोटिस जारी किया। ऋणी/सह—उधारकर्ता(ओ) /गारंटर(ओ)/बंधककर्ता(ओ) हारा राशि का भुगतान करने में विफल रहे, एतद्वारा ऋणी/सह—उधारकर्ता(ओ) /गारंटर(ओ)/बंधककर्ता(ओ) और आम जनता को नोटिस दिया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने नीचे दी गई तारीखों पर उक्त नियमों के नियम 3 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित संपत्ति पर कब्जा कर लिया है। ऋणी/सह—उधारकर्ता(ओं) /गारंटर(ओं)/बंधककर्ता(ओं) को विशेष रूप से और आम जनता को एतद्दवारा चेतावनी दी जाती है कि वे संपत्ति का लेन–देन न करें और संपत्ति व 'गारंटर(ऑ) (बंधककर्ता(ऑ) का ध्यान प्रतिमृति संपत्तियों को मुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

मांग सूचना की तिथि

कब्जे की तिथि

1 14 23 985 /— (एक करोड़ चौद

रुपये मात्र)

उधारकर्ता/सह—उधारकर्ता का नाम	
स्वर्गीय श्री उमेश कुमार, कानूनी उत्तराधिकारियों 1. श्रीमती निशा देवी पत्नी स्वर्गीय श्री उमेश कुमार, श्री कुणाल शर्मा पुत्र स्वर्गीय श्री उमेश कुमार और श्री कुशाग्र शर्मा के माध्यम से , समी निवासी : एच. नं. 28, स्वर्गिम विहार, डुप्लेक्स –2, सेक्टर–82, नोएडा यूपी– 201301	नगर, यू.पी. में स्थित उप लीर डीड संपत्ति/प्लॉट/हाउर धारक सं. 128, ब्लॉट डुप्लेक्स— II, स्वर्णिम विहा भूमि मापक्षेत्र 160 वर्ग मीटर

उपर्युक्त ऋणी/सह—उधारकर्ता(ओं) /गारंटर(ओं)(बंधककर्ता(ओं) को एतद्दवारा राशि चुकाने के लिए 30 दिनों क नोटिस दिया जाता है, अन्यथा प्रतिमृति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8 और 9 के प्रावधानों के अनुसार गिरवी रखी गई संपत्तियों को इस नोटिस के प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों की समाप्ति पर बेची जाएंगी अधिकृत अधिकारी, एक्सिस बैंक लिमिटेर दिनांकः 18.08.2022 स्थानः दिल्ली और एनसीआर

पण्ड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड सीआईएन : L74900DL 1992PLC047055 पंजीकृत कार्यालय : इकाई सं. 421, चौथी मंजिल, पर्व ओमेक्स, नेताजी सुमाष प्लेस, पीतमपुरा, दिल्ली—11003 दूरमाष : +91 11 41681828, +91 11 27371334, वेब : www.rciind.com, ई—मेल :compliance@rciind.con

31वीं वार्षिक आम बैठक की सार्वजनिक सूचना एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कॉर्पोरेट मामले मन्त्रालय ('एमसीए') के परिपत्र 14/2020

17/2020, 20/2020 तथा 02/2021 क्रमश: कॉर्पोरेट मामले मन्त्रालय द्वारा जारी दिनांक 8 अप्रैल 2020, 13 अप्रैल, 2020, 5 मई, 2020 तथा 13 जनवरी, 2021 (''एमसीए परिपत्र'') के साथ पठित कम्पर्न अधिनियम, 2013 के प्रयोज्य प्रावधानों तथा उसके तहत निर्मित नियमों एवं सेबी द्वारा जारी परिपत्र सं सेबी / एचओ / सीएफडी / सीआईआर / पी / 2020 / 79 तथा सेबी /सीएफडी/सीएमडी2/सीआईआर/पी/2021/11 क्रमशः दिनांक 12 मई, 2020 तथा 15 जनवरी, 2021 के अनुपालन में उचित समय पर भेजी जाने वाली एजीएम की सूचना में निर्धारित प्रकार्य व तैन-देन के लिए आरसीआई इण्डस्ट्रीज एण्ड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ("कम्पनी") के सदस्यों की 31वी वार्षिक आम बैठक ("एजीएम") वीडियो कांफ्रेंसिंग ("वीसी")/अन्य ऑडियो–विजुअल साधनी ('ओएवीएम'') के माध्यम से, शुक्रवार 30 सितम्बर, 2022 को प्रातरू 10.30 बजे आयोजित की जायेगी सदस्य पुनरू ध्यान दें कि जारी कोविड—19 महामारी को देखते हुए उपर्युक्त परिपत्रों के अनुपालन में एजीएम का आयोजन वीसीध्ओएवीएम के माध्यम से किया जायेगा तथा पुनरू सरकार के गो—प्रीन इनशिएटिव के अनुसार 31वी एजीएएम की सूचना तथा वित्त वर्ष 2021–22 की वार्षिक रिपोर्ट केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उन सदस्यों के पास भेजी जायेगी जिनके ई–मेल पते कम्पनी/डिपॉजिटरी भागीवार/रजिस्ट्रार एवं शेयर अन्तरण एजेंट ("आरटीए") के साथ पंजीकृत हैं। वीसी या ओएवीएम के माध्यम से बैठक में उपस्थिथ होने वाले सदस्यों की परिगणना अधिनियम सी धारा 103 के तहत कोरम पूरा करने के उद्देश्य से की जायेगी। कम्पनी पूर्व की भाँति अपने सभी सदस्यों को ई–वोटिंग तथ

कम्पनी के वित्त वर्ष 2021-22 की वार्षिक रिपोर्ट सहित 31वी एजीएम की सचना की ई-प्रति कम्पर्न की वेबसाइट www.rciind.com तथा बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com पर भी उचित समय पर उपलब्ध होगी।

सदस्य केवल वीसीध्ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में उपस्थित एवं भाग ले सकेंगे। एजीएम में शामिल होने की के विस्तृत निर्देश 31वीं एजीएम की सूचना में उपलब्ध होंगे। तदनुसार कृपया ध्यान दें कि कोविड-19 महामाही के परिप्रेक्ष्य में सरकारी प्राधिकरणों द्वारा निर्गत निर्देशों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए कम्पनी के एजीएम में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित तथा भाग लेने का कोई प्रावधान नई किया गया है। यदि ई–मेल पते कम्पनीधंडेपॉजिटरी भागीदार के साथ पंजीकृत नहीं हैं तो कृपया पंजीकरण की निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुपालन करें :

कम्पनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर अन्तरण एजेंट, बिगशेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के पार bssdelhi@bigshareonline.com निवंदन भेजें। ई-मेल पते के पंजीकरण के लिए फोलियो नम्बर, धेयरबारक का नाम, शेयर प्रमाणपत्र की स्कैल्ड प्रति (आगे तथा पीछे), पेन (पैन कार्ड की स्वप्रमाणित स्कैल्ड प्रति), आबार (आबार कार्ड की स्वप्रमाणित स्कैल प्रति)। कृपया मूल केंसिल चेक के साथ अपना बैंक विदरण हमारे आस्टीए (अर्थात बिग्ग्येयर सर्विसेज

प्राइवेट लिमिटेड, ई–488, ब्लॉक ई 4, झण्डेवालान एक्सटेंशन, झण्डेवालान, नई दिल्ली–110055 के पास यदि पहले से पंजीकृत नहीं है तो फोलियो नम्बर का उल्लेख करते हुए) भेजें। कृपया अपने डिपॉजिटरी मागीदार (डीपी) से सम्पर्क करें और डीपी के निर्देश के अनुसार अपना कृपया अपने डिपॉजिटरी भागी ई–मेल पता पंजीकृत करायें। कृपया यदि कम्पनी द्वारा घोषित किये जाने पर एनएसीएच द्वारा लाभांश के भुगतान हेतु अपन

बैंक विवरण डीपी के साथ अपडेट करायें। धारिता

सदस्य यह भी ध्यान दें कि यदि आपका ईं–मेल आईडी कम्पनीधंडिपॉजिटरी भागीदार के साथ पंजीकृत है तो रिमोट ईं–वोटिंग/एजीएम के दौरान ईं–वोटिंग के लिए लॉगिन विवरण 31वीं एजीएम की सूचना के साथ पंजीकृत ई-मेल पते पर भेजे जायेंगे। हालाँकि जिन सदस्यों ने अपने ई-मेल आईडी पंजीकृत नहीं कराये हैं वे उपर्युक्त प्रक्रिया के द्वारा ई-मेल का पंजीकरण करा सकते हैं। सदस्य ध्यान दें कि रिमोट ई-वोटिंग/एजीएम के दौरान ई-वोटिंग हेतु विस्तृत प्रक्रिया भी एजीएम की सूचना मे उपर्युक्त सूचना कम्पनी के सभी सदस्यों की सूचना तथा लाभ के लिए निर्गत की जा रही है और यह

एमसीए परिपन्न(त्रॉ) तथा सेवी परिपन्न के अनुपालन में है। कृते आरसीआई इण्डस्ट्रीज एण्ड टेक्नोतॉजीज तिमिटेड

ह./— प्रिया रस्तोगी (कम्पनी सचिव) तिथि : 22 अगस्त. 2022

> प्रपत्र सं. एनसीएलटी ३ए राष्ट्रीय कम्पनी विधि न्यायाधिकरण इलाहाबाद पीठ, इलाहाबाद के समक्ष कम्पनी याचिका - सीपी (सीएए) सं. 14/एएलडी/2022 के साथ संबंधित

कम्पनी आवेदन सीए (सीएए) सं. 15/एएलडी/2022 कंपनी अधिनियम, 2013 के मामले में

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 से 232 तथा अन्य लागू प्रावधानों के साथ पठित कम्पनी (समझौता, व्यवस्था एवं समामेलन) नियमावली, 2016 के तहत याचिका

समामेलन की स्कीम के विषय में

नवज्योति रेजीडेंसी प्राइवेट लिमिटेड

(CIN: U70102UP2010PTC042903), कम्पनी अधिनियम, 2013 के अभिप्राय के भीतर एक प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी, जिसका पंजीकृत कार्यालय 56, माडल टाउन, गाजियाबाद-201001, उत्तर प्रदेश में स्थित है।

एएलडी लैंड ऐंड प्रॉपर्टी मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड (CIN: U45201UP2001PTC025955), कम्पनी अधिनियम, 2013

के अभिप्राय के भीतर एक प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी, जिसका पंजीकृत कार्यालय सीएम-27सी, प्रथम तल, गगन एन्क्लेव, अमृत नगर, जी टी रोड, गाजियाबाद-201009, उत्तर प्रदेश में स्थित है। लक्ष्मी मार्ट प्राइवेट लिमिटेड

(CIN: U01111UP1987PTC008756) कम्पनी अधिनियम, 2013 के अभिप्राय के भीतर एक प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी, जिसका पंजीकृत कार्यालय सीएम-27सी, प्रथम तल, गगन एन्क्लेव, अमृत नगर, जी टी रोड, गाजियाबाद-201009, उत्तर प्रदेश में स्थित है।

अमृत बनस्पति कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड

...(अंतरिती (CIN: U51909UP1985PTC056366) कम्पनी अधिनियम, 2013 कम्पनी/ के अभिप्राय के भीतर एक प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी, जिसका याचिकादाता पंजीकृत कार्यालय ए-95, सेक्टर-65, नोएडा-201309, उत्तर प्रदेश कम्पनी -4) में स्थित है।

याचिका की सूचना

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 के 232 के तहत एक संयुक्त याचिका, नवज्योति रेजीडेंसी प्राइवेट लिमिटेड, अंतरणकर्ता कम्पनी-1/याचिकादाता कम्पनी -1 एएलडी लैंड ऐंड प्रॉपर्टी मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, अंतरणकर्ता कम्पनी-2/ याचिकादाता कम्पनी -2, लक्ष्मी मार्ट प्राइवेट लिमिटेड, अंतरणकर्ता कम्पनी-3/ याचिकादाता कम्पनी -3 का अमृत बनस्पति कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड, अंतरिती कम्पनी/याचिकादाता कम्पनी -4 के साथ समामेलन की स्कीम की स्वीकृति के लिए, याचिकादाता कम्पनियों द्वारा 10 अगस्त, 2022 को प्रस्तुत की गई थी तथा राष्ट्रीय कम्पनी विधि न्यायाधिकरण की इलाहाबाद पीठ के समक्ष उक्त याचिका की सुनवाई के लिए 07 सितम्बर, 2022 की तिथि नियत की गई है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त याचिका के समर्थन अथवा विरोध का इच्छुक है, वह अपने आशय की सूचना, जो उसके अपने स्वयं अथवा उसके चार्टर्ड अकाउंटैंट द्वारा नाम और पता सहित हस्ताक्षरित हो, याचिकादाताओं के अधिकृत प्रतिनिधि/अघिवक्ता को इस प्रकार भेज सकता है, कि याचिकादाताओं के अधिकृत प्रतिनिधि/अघिवक्ता को याचिका की सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि से कम से कम दो दिन पूर्व प्राप्त हो जाए। यदि वह याचिका का विरोध करने का इच्छुक है तो विरोध के आधार अथवा शपथपत्र की प्रति ऐसी सूचना के साथ प्रस्तुत कियाँ जाना चाहिए। याचिका की प्रति प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्ति को याचिका की प्रति अधोहस्ताक्षरी द्वारा उसके निर्धारित शुल्क के भुगतान पर उपलब्ध कराई जाएगी।

अनिल कुमार कार्यरत कम्पनी सेक्रेटरी

स्थान : नई दिल्ली

तिथि : 22.08.2022

...(अंतरणकर्ता

कम्पनी-1/

याचिकादाता

कम्पनी -1)

. (अंतरणकर्ता

कम्पनी-2/

याचिकादाता

कम्पनी -2)

..(अंतरणकर्ता

कम्पनी-3/

याचिकादाता

कम्पनी -3)

याचिकादाताओं के अधिकृत प्रतिनिधि एफसीएस-5693, सी.पी. सं. 5592 सी-03, द्वितीय तल, विनायक सिटी स्क्वायर, 7/9, एस.पी. मार्ग,

सिविल लाइन्स प्रयागराज-211001 (उत्तर प्रदेश) तिथि: 22 अगस्त, 2022 मोबाइल: +91-9415306147 स्थान: गाजियाबाद ई-मेल आईडी - purswanianil@gmail.com सिल्गो रिटेल लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : बी-11, महालक्ष्मी नगर, जवाहर लाल नेहरू मार्ग जयपुर-302017 ई-मेल : lnfo@silgo.ln

सीआईएन : L36911RJ2016PLC049036

वेबसाइट : www.silgo.in दूरभाष नं. : +91-0141-4919655 सूचना

तद्वारा सूचना दी जाती है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 एवं उसके तहत निर्मित नियमों एवं कॉर्पोरेट मामले मंत्रार हारा जारी सामान्य परिपत्र, क्रमशः दिनांक 8 अप्रैल. २०२०. 13 अप्रैल. २०२०. 5 मई. २०२० तथा 13 जनवरी. २०२ 4 दिसम्बर, 2021 तथा 5 मई, 2022 के साथ पठित सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम . 2015 (''एमसीए परिपत्र'') के अनुपालन में कम्पनी की सातवीं (7वीं) वार्षिक आम बैठक (''एजीएम'' शुक्रवार, 23 सितम्बर, 2022 को 4.00 बजे अप. वीडियो कांफ्रेंसिंग (''वीसी'')/अन्य ऑडियो विजुअल साधन 'ओएवीएम'') के माध्यम से आयोजित की जायेगी। पुनः उसके परिपत्र तिथि 13 मई, 2022 (''सेबी परिपत्र'' n द्वारा भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड ने इलेक्ट्रॉनिक पद्धत्ति में सूचीयन सत्ताओं को वार्षिक रिपोर्ट के प्रेष की अनुमति दी है।

7वीं एजीएम की सूचना और वित्तीय वर्ष 2021–22 की वार्षिक रिपोर्ट केवल उन सभी सदस्यों को ई–मेल द्वारा भेज जाएगी जिनकी ई–मेल आईडी कंपनी/डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के पास पंजीकृत है। उपरोक्त दस्तावेज कंपनी व बसाइट www.silgo.in और एनएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.nseindia.com पर भी उपलब्ध हैं। शेयरधारक जिनकी ईमेल आईडी उनके डिपोजिटरी के साथ पंजीकृत नहीं हैं, से आग्रह है कि शुक्रवार, 26 अगस्र 2022 को 5.00 बजे अप. (आईएसटी) या पूर्व आरटीए के पास उसे उपलब्ध कराकर इलेक्ट्रॉनिक रूप से 7वं ज़ीएम की सूचना तथा एकीकृत वार्षिक रिपोर्ट 2021-22 के साथ रिपोर्ट ई-वोटिंग के लिये क्रेडेन्शियल्स प्राप् करने के लिये अपना ईमेल पता पंजीकत करा लें।

और 7वीं एजीएम में रिमोट ई-वोटिंग या एजीएम के दौरान ई-वोटिंग सिस्टम के माध्यम से वोट डालने का तरीक् 7वीं एजीएम की सुचना में दिया गया है।

इस सूचना में प्रस्तावित प्रस्तावों के लिए ई-वोटिंग के लिए लॉगिन क्रेडेंशियल प्राप्त करने के लिए उन शेयरधार<sup>्</sup> के लिए प्रक्रिया जिनके ई-मेल पते डिपॉजिटरी के साथ पंजीकत नहीं हैं:

भौतिक शेयरधारकों के लिए-कृपया फोलियो नंबर, शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाणपत्र की स्कैन की गई कॉ (आगे और पीछे), पैन (पैन कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन की गई कॉपी), आधार (आधार कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन की गई प्रति) जैसे आवश्यक विवरण कंपनी की मेल आईडी cs@silgo.in तथा आरटीए कं ई-मेल आईडी info@bigshareonline.com पर ईमेल द्वारा भेजें।

डीमैट शेयरधारकों के लिए-कृपया डीमैट खाता विवरण (सीडीएसएल-16-अंकीय लाभार्थी आईडी व एनएसडीएल-16-अंकीय डीपीआईडी + सीएलआईडी), नाम, क्लाइंट मास्टर या समेकित खाता विवरण की प्रति पैन (पैन कार्ड की स्व-प्रमाणित स्कैन की गई प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्वप्रमाणित स्कैन कॉपी) कंपनी की मेल आईडी cs@silgo.in तथा आरटीए की ई-मेल आईडी info@bigshareonline.com पर ईमेल

यदि सदस्य कोई पूछताछ करना चाहते हैं तो वे www.evotingindia.com पर हेल्प खण्ड के तहत उपल Frequently Asked Questions ("FAQs") तथा e- voting manual का सन्दर्भ ले सकते हैं अथव elpdesk.evoting@cdslindia.com पर मेल लिखें या 022-23058738 तथा 022-23058542/43 प सम्पर्क करें।

तिथि : 22.8.2022

इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड ध्रिक्क INDIA LIMITED (A Govt. of India Undertaking

पजीकृत कार्यालय : इजीनियर्स इंडिया भवन, 1, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066, भारत Regd.Office: Engineers India Bhawan, 1, Bhikaji Cama Place, New Delhi - 110066, India ई—मेल / e-mail: company.secretary@eil.co.in, दूरमाष / Phone: 011-26762855/2580 कंपनी सचिवालय/COMPANY SECRETARIAT

### 57वीं वार्षिक सामान्य बैठक के संबंध में सूचना

एतदद्वारा सूचना दी जाती है कि कम्पनी की 57वीं वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम मंगलवार, 27 सितम्बर, 2022 को अप. 03:00 बजे, एजीएम आयोजन की सूचना सूचीबद्ध व्यवसाय के निष्पादन हेतु, कम्पनी अधिनियम, 2013 के सभी लागू प्रावधानों एव तद्धीन विरचित नियमों तथा सेबी (सचीयन दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाए विनियमावली, 2015 के साथ पठित कार्पोरेट मंत्रालय ("एमसीए") द्वारा जारी सर्कुलर नंब 14/2020 दिनांकित 08 अप्रैल, 2020, सर्कुलर नंबर 17/2020 दिनांकित 13 अप्रैल 2020, सर्कुलर नंबर 20/2020 दिनांकित 05 मई, 2020, सर्कुलर नंबर 02/2020 दिनांकित 13 जनवरी, 2021, सर्कुलर नंबर 19/2021 दिनांकित 08 दिसम्बर, 2021 सर्कुलर नंबर 21/2021 दिनांकित 14 दिसम्बर, 2021 तथा सर्कुलर नंबर 02/2022 दिनांकित 05 मई, 2022 और सेबी सर्कुलर नंबर सेबी / एचओ / सीएफडी / सीएमडी /सीआईआर/पी/ 2020/79 दिनांकित 12 मई, 2020, सेबी/एचओ/सीएफडी/ सीएमडी2 / सीआईआर / पी / 2021 / 11 दिनांकित 15 जनवरी, 2021 तथ सेबी / एचओ / सीएफडी / सीएमडी2 / सीआईआर / पी / 2022 / 62 दिनांकित 13 मई 2022 (सामूहिक रूप से "संबद्ध सर्कुलर्स" कहे गए हैं) के अनुपालन में, किसी उमर स्थान पर कम्पनी के सदस्यों की भौतिक उपस्थित के बिना, वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग (वीसी) / अन्य ऑडियो विजुअल मीन्स (ओएवीएम) के माध्यम से, आयोजित की जाएगी वीसी / ओएवीएम के माध्यम से भाग ले रहे सदस्यों की गणना अधिनियम, 2013 की धार 103 के तहत गणपूर्ति के प्रयोजनार्थ की जाएगी।

संबद्ध सर्कुलर्स एवं वैधानिक प्रावधान के अनुपालन में, कम्पनी की वार्षिक रिपोर्ट जिसमें एजीएम की सूचना, वित्तीय वर्ष 2021—22 हेतु वित्तीय विवरण, निदेशकगण की रिपोर्ट लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट तथा उसके साथ संलग्न किए जाने हेतु अपेक्षित अन्य दस्तावेजें के साथ कम्पनी के उन सभी सदस्यों को भेजी जाएगी, जिनका ई-मेल पत कम्पनी / डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (पार्टिसिपेंट्स) के पास पंजीबद्ध मौजूद है। सदस्यगप कपया नोट करें कि उपरोक्त दस्तावेज कम्पनी की वेबसाइट www.engineersindia.com पर तथा स्टॉक एक्सचेंजेज नामतः बीएसई लिमिटेड और एनएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com और www.nseindia.com क्रमानुसार पर और नैशनट सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com

सदस्यों से ई-मेल पता और मोबाइल नंबर के विधिमान्यकरण/अद्यतनीकरण के लि निर्धारित प्रपत्र आईएसआर—1 में इलेक्ट्रॉनिक रूप में धारित शेयरों के मामले डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के साथ अथवा भौतिक रूप में धारित शेयरों के मामले में कम्पर्न के रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेन्ट, अलंकित असाइनमेंट्स लिमिटेड के साथ सम्पर्क करने का अनुरोध है। जिन सदस्यों ने अपना ई–मेल पता पंजीकृत नहीं करवाया है, वे वार्षिव रिपोर्ट और एजीएम सूचना के प्रेषण के प्रयोजन हेतु लिंक https://mailupd.alankit.com पर विलक करके अपना ई-मेल पता अलंकित असाइनमेंट्स लिमिटेड के पास अस्थार्य रूप से पंजीकृत करवा सकते हैं। किसी संदेह की स्थिति में, सदस्यगण एक ई-मेल अनरोध ई-मेल आईडी rta@alankit.com को ई-मेल पता मोबाइल नबर रव—सत्यापित पैन प्रति तथा इलेक्ट्रॉनिक फोलियो के मामले में क्लाइंट मास्टर कॉपी और भौतिक फोलियो के मामले में शेयर सर्टिफिकेट की कॉपी सहित हस्ताक्षरित अनुरोध पत्र की स्कैन प्रति के साथ भेज सकते हैं।

ई—वोटिंग / वेन्यू वोटिंग के माध्यम से वोट डालने की विधि

(क) सदस्यगण को एजीएम की सूचना में सूचीबद्ध व्यवसाय पर अपना/अपने वोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम (रिमोट ई-वोटिंग / वेन्यू वोटिंग) के माध्यम से डालने क

(ख) अभौतिक रूप, भौतिक रूप में कम्पनी के शेयरों के धारक जिन सदस्यों ने अपना ई—मेट पता पंजीकृत नहीं करवाया गया है, उनके द्वारा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की विधि एजीएम की सूचना में दी गई है, जो सदस्यों को साविधिक समयसीमा के भीतर 'मेल' की जाएगी। यह विवरण कम्पनी की वेबसाइट www.engineersindia.com पर भी उपलब्ध होगा तथा नैशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) (रिमोट ई-वोटिंग सुविधा उपलब्ध कराने हेतु एजेन्सी) की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर तथा स्टॉक एक्सचेंजेज नामत बीएसई लिमिटेड और एनएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com और www.nseindia.com क्रमानुसार पर भी उपलब्ध है।

. ग) कोई व्यक्ति, जो सूचना के प्रेषण के पश्चात कम्पनी के शेयर अर्जित करता है तथा कम्पनी का सदस्य बनता है और कट—ऑफ तिथि अर्थात मंगलवार, 20 सितम्बर, 2022 को शेयरे का धारक है अथवा सदस्यगण, जिनके द्वारा अपनी ई—मेल आईडी पंजीकृत नहीं करवाइ गई है, वे भी वार्षिक रिपोर्ट / सूचना की सॉफ्ट / हार्ड कॉपी के लिए rta@alankit.com पर अनुरोध कर सकते हैं। सदस्यगण इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम तथा एजीएम में वीसी / ओएवीएम के माध्यम से भाग लेने के लिए लॉग-इन क्रेडेन्शियल्स और अन्य विवरण प्राप्त करने के लिए उक्त सूचना में दिए अनुदेश का पालन कर सकते हैं।

निदेशक मंडल ने 27 मई, 2022 को सम्पन्न अपनी बैठक में ₹5 /- प्रत्येक के अंकि मूल्य के प्रत्येक शेयर पर ₹1 / – का अंतिम लाभांश संस्तुत किया है। कम्पनी ने प्रस्तावित लाभांश प्राप्त करने के हकदार सदस्यों के निर्धारण हेतु रेकार्ड तिथि सोमवार, 5 सितम्बर 2022 निर्धारित की है। अंतिम लागांश, यदि सदस्यों द्वारा एजीएम में अनुमोदित किय जाता है, इलेक्ट्रॉनिक विधि से उन सदस्यों को अदा किया जाएगा, जो इलेक्ट्रॉनिव क्लीयरिंग सर्विसेज (ईसीएस) के माध्यम से लाभांश प्राप्त करने के लिए अपना बैंक विवरण अद्यतन करवा चुके हैं। जिन सदस्यों ने अपना बैंक विवरण अद्यतन नहीं करवाय है, उनको लाभाश वारटस / डिमांड ड्राफ्ट्स उनके पंजीकृत पते पर भेजे जाएंगे। लाभाश प्राप्त करने में विलम्ब से बचने के लिए, सदस्यों से अनुरोध है कि अपना बैंक विवरण अपन डिपॉजिटरी पार्टिसिपैंटस के पास, जहां उनके शेयर अभौतिक रूप में धारित हैं और अलंकित असाइनमेंटस लिमिटेड के पास, जहां शेयर भौतिक रूप में धारित हैं, निर्धारित प्रपत्र आईएसआर—1 में करवा लें।

वित्त अधिनियम, 2020 के अनुसरण में, 01 अप्रैल, 2020 की प्रभावी तिथि से सदस्यों व हाथों में लाभांश आय कर योग्य होगी तथा कम्पनी द्वारा सदस्यों को भुगतान किए गए लाभांश से आयकर अधिनियम, 1961 ("आईटी ऐक्ट") में निर्धारित दरों पर स्रोत पर क कटौती की जानी ("टीडीएस") अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त, 1 जुलाई, 2021 के प्रभाव से वित्त अधिनियम, 2021 में अधिनियम की धारा 206कख के प्रावधान अंतर्वेशित किए गए हैं जिसके अनुसार कम्पनी को उपरोक्त धारा के प्रावधानों के तहत परिभाषित अनुसार "विनिर्दिष्ट व्यक्ति" के संबंध में कर कटौती उच्चतर दरों पर करनी होगी।

विभिन्न संवर्गों के लिए निर्धारित दरें, एनआईएल / अधिमान्य टीडीएस हेतु शर्तें तथ उसके लिए अपेक्षित विवरण / दस्तावेज के लिए, सदस्यों से इस संबंध में आईटी ऐक्ट तथा 57वीं एजीएम की सूचना देखने का अनुरोध है। सदस्यगण न्यूनतर टीडीएस के लि अपेक्षित दस्तावेज कम्पनी के पास company.secretary@eil.co.in पर अथवा आरटी के पास rta@alankit.com पर सोमवार 12 सितम्बर, 2022 तक जमा कर सकते हैं साधारणतः टीडीएस अपेक्षाओं के सामान्य अनुपालन की सक्षमता हेतु, सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपनी निवास स्थिति, पैन, आईटी एक्ट के अनुसार संवर्ग का विवरण अपने डिपॉजिटरी के पास अथवा शेयर भौतिक रूप में धारित हैं, तो कम्पनी के आरटीए के पार rta@alankit.com पर पूर्ण तथा / अथवा अद्यतित करवा लें।

यदि आपको एजीएम में भाग लेने एवं ई-वोटिंग सिस्टम से ई-वोटिंग के संबंध में कोइ संदेह अथवा समस्या है, तो आप www.evoting.nsdl.com में डाउनलोड सेक्शन व अंतर्गत उपलब्ध फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन्स ("एफएक्यूज") तथा ई-वोटिंग मैनुअल देखें अथवा सुश्री सोनी सिंह को evoting.nsdl.co.in पर ई-मेल भेजें। निवेशक टोल फ्री नंबर 18001020 990 अथवा 1800224430 पर भी सम्पर्क कर सकते हैं। किसी अन्य पूछताछ के लिए, आप कम्पनी के कम्पनी सेक्रेटरी से भी नीचे दिए विवरण के अनुसार सम्पर्क कर सकते हैं

कम्पनी सेक्रेटरी, इजीनियर्स इंडिया लिमिटेडए चतुर्थ तल, इंजीनियर्स इंडिया भवन भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली—110066; फोन : 011—2610 0258 ई—मेल : company.secretary@eil.co.in

सदस्यों से अनुरोध है कि एजीएम की सूचना में सूचीबद्ध सभी नोट्स और विशेष रूप से एजीएम में भाग लेने, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के माध्यम से वोट डालने की विधि संबंधी अनुदेश सावधानी के साथ पढ़ लें।

> निदेशक मंडल के आदेश द्वारा एस. के. पाढी कम्पनी सेक्रेटरी

AXIS BANK रिटेल लेण्डिंग एवं पेमेन्ट ग्रुप (स्थानीय कार्यालय/शाखा): एक्सिस हाउस, टावर-2, 2ग तल, आई-14, सेक्टर-128, नोएडा एक्सप्रैसले, जयपी ग्रीन्स शटाउन, नोएडा-201301, उ.प्र. एक्सिस बैंक लि., 3ग तल, गीगा प्लेक्स, एनपीसी-1, टीटीसी इंडस्ट्रियल एरिया, मुगालसन रोड, ऐरोली, नवी मुम्बई-400708, पंजीकृत कार्यालय: ''त्रिशूल'', उरा तल, समर्वेश्वः टेम्पल के सामने, लॉ गार्डन, एलिस ब्रिज, अहमदामाद-380006

अचल सम्पत्ति की बिक्री के लिये बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम %(6) के प्रावधानों के साथ पठित वित्तीय परिसम्पतियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अचल परिसपतियों के बिक्की के लिये ई-नीलामी बिक्की सुचना

रतदद्वारा सर्व-साधारण तथा विशेष रूप से ऋणधारक(कों) तथा गारंटरों को सचित किया जाता है कि प्रतिभ केडीटर के पास गिरवी/प्रभारित नीचे वर्णि त अचल सम्पत्ति जिसका प्रतिभत केडीटर के प्राधिकत अधिकारी द्वा मैतिक कब्जा किया गया है की 1. श्री अमित त्यागी एवं 2. श्रीमती वर्षा देवी से ऋण सं. PHR00560163804 में प्रतिभृत क्रेडीटर के बकाये आगे के ब्याज तथा लागतों के साथ 18.08.2022 को रु. 14,87,114/- (रु. चौदा लाख सतासी हजार एक सौ चौदह मात्र) की वसूली के लिये 29.09.2022 को '' जैसा है जहाँ है'', ''जो कृष्ट भी वहाँ है'' आधार पर बिक्री की जाएगी। आवश्यक विवरणों के लिये कृपया संलग्न नीलामी अनुसूची देखें:

ज्ञात नहीं

रु. 5,87,175/- (रु. पाँच लाख सतासी हजार एक सै

धरोहर राशि भुगतान (रु. में)	रु. 58,717.50/- (रु. अन्डावन हजार सात सौ सत्तरह एवं पैसे पचास मात्र) जिसका भुगतान ''एक्सिस बैंक लि.'' के पक्ष में देय दिल्ली में भुगतान चोग्य डीडी/पीओ द्वारा किया जायेगा।
बोली वृद्धि राशि	रु. 10,000/- (रु. दस हजार मात्र)
ईएमडी सहित बोली निविदा जमा करने की अंतिम तिथि, समय एवं स्थान	28 सित., 2022 के अधिकतम 5.00 बजे अप. तक श्री अभिनव कुमार पाण्डेय को संबोधित एक्सिस हाउस, टावर- 2, 2रा तल, आई-14, सेक्टर-128, नोएडा, एक्स्प्रैस वे, जयपी ग्रीन्स, विशटाउन, नोएडा-201301, उ.प्र. में।
सार्वजनिक नीलामी की तिथि, समय एवं स्थान	29 सित., 2022, 11.00 बजे पूर्वा से 12.00 बजे दोपहर तक प्रति 5 मिनट के असीमित विस्तार के साथ वेब पोटेल: https://www.bankeauction.com पर ई-नीलामी बोली प्रपत्र, उद्योषणा आदि से संबंधित ई-नीलामी निविद्या दस्तावेज उपर वर्णित सेवा प्रदाता

उक्त भवन जिसमें उक्त सम्पत्ति अवस्थित है. में शेयर एवं हित तथा बिल्डिंग/स्कीम/कॉप्लैक्स में दी गई सामहि क्षेत्रों तथा सुविधाओं के साथ ग्राम मसीत ( अर्बन एरिया भिवाडी), भिवाडी–अलवर बाईपास रोड, तहसील तिजार जेला-अलवर, राजस्थान (सेक्टर 106, भिवाडी में एवेलॉन होम्स का यूनिट नं. 304, एन, 3रा रोड, टावर-। 3 जिसका सुपर निर्मित एरिया 390 वर्ग फीट है तथा चौहद्दीः इस प्रकार हैः (बिक्री प्रलेख के अनुसार)ः पूर्वः बिक्री पुलेख के अनुसार, पश्चिम: बिकी पुलेख के अनुसार, उत्तर: बिकी पुलेख के अनुसार, दक्षिण: बिकी पुलेख के अनुसार, बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिये कृपया प्रतिभूत क्रेडीटर की वेबसाईट अर्थात् https://www.axisbank.com/auction-retail में दी गई लिंक तथा बैंक के स्वीकृत सेवा प्रदाता मै. सी1 इंडिया प्राईवेट लिमिटेड का वेब पोर्टल https://www.bankeauction.com देखें। यह नीलामी बैंक के स्वीकृत सेवा प्रदाता मै. सी1 इंडिया प्राईवेट लिमिटेड का वेब पोर्टल

https://www.bankeauction.com द्वारा ऑनलाईन आयोजित की जायेगी। अन्य किसी भी प्रकार की सहायता के लिये इच्छुक बोलीदाता श्री अभिनव कुमार पाण्डेय, मोबाईल न

+91-9911906502, बैंक के प्राधिकृत अधिकारी से बैंक कार्यालय अविध 10 बजे पूर्वा से 4.00 बजे अप. तक सम्पर्क करें। तिथि: 23.08.2022

स्थानः नोएडा

बीआईटीएस लिमिटेड

(सीआईएन: L72200DL1992PLC241971) पंजीकृत कार्यालयः 711, 7वां तल, नई दिल्ली भवन, 27, बाराखंमा मार्ग, नई दिल्ली-110001 ईमेलः bitsltd@gmail.com, वेबसाइटः http://www.bits.net.in, दूरभाषः 011–43 ई-मेल पता एवं अन्य जानकारी का अद्यतन करने हेतु सदस्यों के लिए सूचना

नवरत् बनी हुई कोविङ—19 महामारी को ध्यान में रखते हुए, सामाजिक दूरी एक ऐसा सुरक्षापरक प्रतिमान जिसका पालन किया जाना आवश्यक है तथा परिपत्र सं. 20/2020 दिनांकित 05 मई 2020, परिपत्र २ / २०२१ दिनांकित १३ जनवरी २०२१. परिपत्र सं. १९ / २०२१ दिनांकित ०८ दिसंबर २०२१. परिपत्र सं. २१ / २०३ किंत 14 दिसंबर 2021 एवं परिपत्र सं. 2/2022 दिनांकित 05 मई 2022 के अनुसरण में कॉपॉरेट व गलय द्वारा निर्गत परिपन्न सं 14/2020 दिनांकित 08 अप्रैल 2020 परिपन्न सं 17/2020 दिनांकित प्रति : (प्रामुहिक रूप में "एमसीए परिपजों" के रूप में संदर्शित) और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिम्ब वो 'संबी') द्वारा निर्गत अपने परिपत्र सं. सेबी /एवओं/ सीएफडी/ सीएमडी2/सीआईआर/पी/2022/62 दिनां त 13 मई 2022 ("सेवी परिपन्न" के रूप में संदर्भित) के पालनानुपालन में फंट फेपनी को, समा में सदस्यों कितगत उपस्थिति के बिना वीडियों कांफ्रेंसिंग ("वीसी")/अन्य दृश्य–श्रव्य माध्यमों ("ओएवीएम") के माध्य वार्षिक सामान्य समा ("एजीएम") के आयोजन की अनुमति प्रदान की गई है। कंपनी अधिनियम 201: अधिनियम") के प्रावधानों, सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली 2015 ("सेबं चीकरण विनियमावली'') तथा एमसीए परिपत्रों एवं सेबी परिपत्र के अनपालन में. कंपनी की आगामी 30वें ोएम का आयोजन रविवार 25 सितंबर 2022 को अपराहन 05.00 बजे (भा.मा.स.) पर वीसी/ओएवीएम ध्यम से किया जाएगा। अतः सदस्यगण केवल वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में उपस्थि सकते हैं तथा उसमें भागीदारी कर सकते हैं।

. प्रयुक्त एमसीए परिपत्रों तथा सेबी परिपत्र के अनुपालन में, वित्तीय वर्ष 2021–2022 के वार्षिक प्रतिवेदन अ 30वीं एजीएम की सूचना केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उन सदस्यों को प्रेषित की जाएगी. जिनके ईमे कंपनी/रजिस्ट्रार तथा अंश अंतरण अमिकर्ता ('आरटीए') के साथ अथवा डिपॉजिटरी पार्टिसिपें डीपी')/डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत हैं। कंपनी, पहले की कार्यपद्धितयों की तरह अपने सभी सदस्यों नीएम के दौरान ई–वोटिंग तथा रिमोट ई–वोटिंग सुविधा भी उपलब्ध करा रही है।

. पदि आपका ईमेल पता. कंपनी/आरटीए/ अथवा डीपी/डिपॉजिटरी के पास पहले ही पंजीकत है तो वित्ती र्ष 2021—2022 के वार्षिक प्रतिवेदन के साथ एजीएम की सूचना और ई—वोटिंग के लॉगिन विवरण, आपन नीकत ईमेल पते पर प्रेषित किए जाएंगे। और यदि आपने कंपनी / आरटीए अथवा डीपी / डिपॉजिटरी के सा ाने ईमेल पते पंजीकृत नहीं कराए हैं तो सूचना, वित्तीय वर्ष 2021—2022 के वार्षिक प्रतिवेदन और ई—वोटिं हें लॉगिन विवरण प्राप्त करने के लिए अपने ईमेल पतों का पंजीकरण करने के लिए कृपया निम्नानुदेशों व

ईमेल पतों एवं बैंक खाता विवरणों का पंजीकरण/अद्यतनीकरण

विधवत भरे गए प्रपत्र सं. आईएसआर—1 में एक अनुरोध लिखकर कंपनी के आरटीए अर्थ मएएस सर्विसेज लिमिटेड, टी—34, द्वितीय तल, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज—11, न देल्ली—110 020 को प्रेषित करें. जिस प्रपत्र सं. आईएसआर—1 को कंपनी की वेबसाइ ww.bits.net.in पर इंवेस्टर रिलेशन टैब के अंतर्गत जाकर और साथ ही साथ आरटी की वेबसाइट अर्थात www.masserv.com पर डाउनलोड टैब के अंतर्गत जाकर डाउनलोड किया जा सकता है। आप प्रपत्र सं. आईएसआर—1 को इस पर डिजिटल हस्ताक्षर करवे आरटीए की ईमेल आईडी info@masserv.com पर भी प्रेषित कर सकते हैं और साथ र्ह इसकी एक प्रति कंपनी को bitsltd@gmail.com पर भेजनी होगी।

pपया अपने डीपी से संपर्क करें और डीपी द्वारा दी गई सलाह पर आधारित प्रक्रियानुस अपने ईमेल पते एवं बैंक खाता विवरण पंजीकृत करें।

ई—वोटिंग जानकारी:

-वोटिंग सुविधा उपलब्ध कराएगी। एजीएम में भागीदारी करनेवाले अंशधारकों को भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग व ाधा उपलब्ध करायी जाएगी। इसके संदर्भ में विवरण, एजीएम की सूचना में उपलब्ध कराए जाएंगे पनी की वेबसाइट यथा www.bits.net.in पर भी उपलब्ध कराए जाएंगे।

रूजीएम की सूचना तथा वित्तीय वर्ष 2021–2022 का वार्षिक प्रतिवेदन कंपनी की वेबसाइट www.bits.net. वर तथा बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com पर भी उपलब्ध होगा। वीसी/ओएवीएम यम से सभा में उपस्थित होनेवाले सदस्यों की गणना, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 103 के अंतर्ग गणपूर्ति के उददेश्यार्थ की जाएगी।

िलसी प्रश्न की स्थिति में सदस्यगण, कंपनी को एक प्रति अग्रसरण का चिन्हांकन करते हुए, उपरो वर्णितानुसार पते एवं ई–मेल आईडी पर आरटीए से संपर्क कर सकते हैं अथवा पत्र लिख सकते हैं।

ग्रनः नई दिल्ली कंपनी सचिव एवं अनुपाल

वर्थना फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड arthana

आधिपत्य सूचना (नियम ८(1)) (अचल संपत्ति हेतु)

सुरेंद्र सिंह तांग

जबिक, अधोहस्ताक्षरकर्ता ने **मैं. वर्थना फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व में मै. थिरुमेनी फाइनेंस प्राइवेट लि. के रूप में अभिज्ञात)** गुरुग्राम शाखा के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (2002 का 54) के अंतर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, एव मांग् सूचना दिनांकित् 26.02.2022 निर्गत की थी, जिसमें आवेदकों / सह—आवेदकों / बंधककर्ताओं को, ऋण खाता सं एस18जीयूआर—जीयूआर—003079, एस19जीयूआर—जीयूआर—006218, यू20जीयुऔर-जीयूऔर-015139 और यू21जीयूआर-जीयूआर-016636 के अंतरीत, 1) मैसर्स एल आफिया पब्लिक स्कूल, इसके प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा अभिवेदित, 2) मैसर्स अल-आफिया एजुकेशनल सोसाइटी, इसके प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा अभिवेदित, सं. 1 एवं 2 का कार्यालय बुराका ग्राम, हथिन तहसील, पलवल जनपद, 121103 में स्थित है, 3) सरफूराज पुत्र आस मोहम्मद, मकान नं. 07, वार्ड नं. 03, बुराका ग्राम, हथिन (२५१) तहसील, पलवल् जनपद — 121103, हरियाणा, 4) सफीना पत्नी सरफराज, 5) आस मोहम्मद पुत्र चाहत खान,

नं. 4 एवं 5 निवासी मकान नं. 07, वार्ड नं. 03, बुराका हुदिथल, हथिन

अंकित 19.02.2022 के अनुसार रु. 23,74,474.00 (रुपए तेईस लाख चवहत्तर हजार

चार सौ चवहत्तर मात्र) का, भुगतान की तिथि तक आकलित आकस्मिक व्ययों

लागत तथा अन्य शुल्कों इत्यादि के साथ ब्याज की अनुबंधित संविदात्मक दर के

(251) तहसील, जनपद पलवल—121103, हरियाणा को उक्त सूचना

साथ, मांग सूचना में वर्णित विवरणों के अनुसार, उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिवसों के अंदर, प्रतिभुगतान करने को कहा गया था। चूंकि, यहां इसमें उपरोक्त वर्णित आवेदकगण/सह—आवेदकगण/बंधककर्तागण ब्याज/अन्य शुल्कों के साथ पूर्ण निर्धारित बकाया राशि का प्रतिभुगतान करने मे विफल हो चुके हैं, अतएव एतद्द्वारा आवेदकों / सह-आवेदकों / बंधककर्ताओं के विशेष रूप में तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा सामान्य रूप में सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने **मैसर्स वर्थना फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, गुरुग्राम शाखा** के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में यहां इसमें निम्न विवरणित संपत्ति का प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, 18 अगस्त

2022 को, आधिपत्य ग्रहण कर लिया है। आवेदकों / सह–आवेदकों / बंधककर्ताओं को विशेष रूप में तथा जनसाधारण के एतदद्वारा सामान्य रूप में सावधान किया जाता है कि संपत्ति का लेन-देन न करे तथा संपत्तियों का कोई व किसी भी प्रकार का लेन-देन, दिनांक 19.02.2022 व अनुसार रु. 23,74,474.00 (रुपए तेईस लाख चवहत्तर हजार चार सौ चवहत्तर मात्र की एक राशि का, भुगतान की तिथि तक यहां इसमें ऊपर अंकितानुसार ब्याज की अनुबंधित संविदात्मक दर और आकलित आकस्मिक व्ययों, लागत तथा अन्य शुल्कों इत्यादि हेतु मैसर्स वर्थना फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, गुरुग्राम के प्रभाराधीन होगा आवेदकों / सह—आवेदकों / बंधककर्ताओं का ध्यानाकर्षण प्रतिभूत परिसंपत्तियों व मोचनार्थ उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) वं प्रावधानों की ओर आमंत्रित किया जाता है।

अवश्वत भागित भागित भागित है। किला नंबर 14, 25/2, खाता नंबर 59, मुस्तितिल नंबर 11, िकला नं 16, 17, मुस्तिति नंबर 10, 18, मुस्तितिल नंबर 11, किला नंबर 16, मुस्तितिल नंबर 11, किला नंबर 61, मुस्तितिल नंबर 12, किला नंबर 5/1, खाता नंबर 61, मुस्तितिल नंबर 9, किला नंबर 2, खाता नंबर 62, खसरा नंबर 10, खाता नंबर 64, मुस्तितिल नंबर 11, किला नंबर 6, 24 55/1, खसरा नंबर 128, खाता नंबर 65, मुस्तितिल नंबर 12, किला नंबर 12, किला नंबर 12, किला नंबर 14, खाता नंबर 66, मुस्तितिल नंबर 10, किला नंबर 10, मुस्तितिल नंबर 11, किला नंबर 11, किला नंबर 12, किला नंबर 12, किला नंबर 13, किला नंबर 14, मुस्तितिल नंवर 11, किला नंबर 15, खेवट नंबर 39, खाता नंबर 67, मुस्तितिल नंव 10, किला नंबर 12, मुस्तितिल नंवर 11, किला नंबर 15, खेवट नंबर 39, खाता नंबर 67, मुस्तितिल नंवर 11, किला नंबर 15, खेवट नंबर 39, खाता नंबर 67, मुस्तितिल नंवर 11, किला नंबर 15, खेवट नंबर 39, खाता नंबर 67, मुस्तितिल नंवर 11, किला नंबर 15, खेवट नंबर 39, खाता नंबर 67, मुस्तितिल नंवर 11, किला नंबर 15, खेवट नंबर 39, खाता नंबर 67, मुस्तितिल नंवर 11, किला नंबर 15, खेवट नंबर 39, खाता नंबर 67, मुस्तितिल नंवर 11, किला नंबर 15, खेवट नंबर 39, खाता नंबर 67, मुस्तितिल नंबर 11, किला नंबर 15, खेवट नंबर 39, खाता नंबर 67, मुस्तितिल नंबर 11, किला नंबर 15, खेवट नंबर 39, खाता नंबर 67, मुस्तितिल नंबर 11, किला नंबर 15, खेवट नंबर 39, खाता नंबर 67, मुस्तितिल नंबर 11, किला नंबर 15, खेवट नंबर 39, खाता नंबर 67, मुस्तितिल नंबर 11, किला नंबर 12, किला नंबर 12, किला नंबर 12, किला नंबर 13, खेवट 11, किला नंबर 14, किला नंबर 12, किला नंबर 12, किला नंबर 13, किला नंबर 14, किला नंबर 14, किला नंबर 14, किला नंबर 12, किला नंबर 14, किला नंबर 14, किला नंबर 14, किला नंबर 12, किला नंबर 12, किला नंबर 14, किला नं

ाड़क, दक्षिण— अन्य भूमि। टिप्पणीः आवेदकों / सह-आवेदकों को घारा 13 (4) आघिपत्य सूचना को चिपका कर अनुपालन करने की अनुमति नर्ह

नई दिल्ली

दिनांकः 23.08.2022, स्थानः बुराका

प्राधिकृत अधिकारी, वर्धना फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड